

गोपनीय और कानूनी विशेषाधिकार के अधीन

ISGM सामूहिक कार्रवाई अपडेट: जुलाई 2020

Robert Mutch बनाम ISG Management Pty Ltd

आपकी कानूनी टीम की ओर से अपडेट

हमने आपको यह याद दिलाने के लिए लिखा है कि कृपया नीचे दिए गए लिटिगेशन फंडिंग अग्रीमेंट को पढ़ें, हस्ताक्षर करें और वापस कर दें।

लिटिगेशन फंडिंग अग्रीमेंट ISGM के खिलाफ आपके क्लेम को फंड करने के लिए आपके और लिटिगेशन लेंडिंग सर्विसेज लिमिटेड (LLS) के बीच हुआ एक समझौता है।

हम इस बात की पुष्टि करते हैं कि ना तो फंडर, लिटिगेशन लेंडिंग सर्विसेज, और ना ही शाइन आपसे किसी कानूनी खर्च के भुगतान और श्रम के मुआवजे की मांग करेगा, ISGM की ओर से ली गई किसी प्राप्ति को छोड़कर। यदि आपका क्लेम असफल होता है, तो आपको शाइन या LLS को किसी भी कानूनी खर्च का भुगतान नहीं करना होगा।

इसके अलावा, हम इस बात की पुष्टि करते हैं कि सामूहिक कार्रवाई में आपकी भागीदारी को गोपनीय रखा जाएगा, और इनके समक्ष आपकी पूर्व सहमति के साथ ही प्रकट किया जाएगा:

- न्यायालय के समक्ष, यदि किसी गोपनीय आधार पर कोई निपटान या सफल फैसला होता है; और/या
- ISGM के समक्ष, यदि निपटान या फैसले के भाग के रूप में जरूरी हुआ, आपके दावे और/या भुगतान के सत्यापन को सक्षम करने के लिए।

लिटिगेशन फंडिंग अग्रीमेंट को ऑनलाइन प्राप्त करने और सहमत होने के लिए, कृपया नीचे दिए गए बटन पर क्लिक करें। कृपया ध्यान दें कि बटन आपको एक अलग विशेष लिंक पर ले जाएगा जिसे किसी अन्य के साथ साझा नहीं किया जाना चाहिए।

[लिटिगेशन फंडिंग अग्रीमेंट के लिए विशेष लिंक को प्राप्त करें](#)

कागज़ी दस्तावेज़ के तौर पर लिटिगेशन फंडिंग अग्रीमेंट से सहमत होने के लिए, कृपया यहां फॉर्म डाउनलोड करें और फिर प्रिंट करें और फॉर्म को इस ईमेल के नीचे दिए गए डाक पते पर भेज दें।

केस का अपडेट

मार्च 2020 में आपके लिए हमारे अंतिम अपडेट के बाद, ISGM ने इस कार्रवाई को 'डी-क्लास' करने के ISGM के आवेदन के संबंध में न्यायाधीश ब्रॉम्बर्ग के फैसले के खिलाफ एक याचिका दायर की है। यह याचिका अभी अस्ट्रेलिया के फेडरल कोर्ट के फुल कोर्ट में है और अनुमानतः इस अपील की सुनवाई नवंबर 2020 में होगी।

ISGM की अपील के बावजूद, सामूहिक कार्रवाई प्रगति पर है, और फेडरल कोर्ट में अगला केस मैनेजमेंट कॉन्फ्रेंस 11 अगस्त 2020 को निर्धारित किया गया है। हमारी मंशा है हम आपको इस पेशी के बाद एक और अपडेट प्रदान करेंगे।

इस पूरी प्रक्रिया में आपके धैर्य के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। यदि आपको इस अपडेट के बारे में कुछ पूछना हो, तो कृपया नीचे दिए गए विवरण के माध्यम से हमसे संपर्क करें।

इस बात पर नए अपडेट के लिए कि ISGM के खिलाफ सामूहिक कार्रवाई कैसे आगे बढ़ रही है, [कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएँ](#)।

कानूनी जाँच: सर्विस स्ट्रीम

आप में से कई के साथ होने वाले हमारे पत्राचार के माध्यम से, हम यह जान चुके हैं कि बड़ी संख्या में तकनीशियनों ने ISGM और विशेष रूप से सर्विस स्ट्रीम सहित कई दूरसंचार कंपनियों को सेवाएं प्रदान की थीं।

यह स्पष्ट हो गया है कि सर्विस स्ट्रीम ने बहुत ही समान कार्य मॉडल और कार्य-प्रथाओं का उपयोग किया है जो दूरसंचार तकनीशियनों को उनके वैधानिक रोजगार अधिकार, जैसे न्यूनतम वेतन, वार्षिक अवकास और पेंशन, की तुलना में कम भुगतान किया है।

शाइन लॉयर्स वर्तमान में **ISGM सामूहिक कार्रवाई** के समान शर्तों के आधार पर सर्विस स्ट्रीम के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जांच कर रहा है।

उस जांच के हिस्से के रूप में, हम किसी भी ऐसे तकनीशियन को हमारे साथ **पूर्ण गोपनीय आधार** हमसे संपर्क करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं जिसका **2014 से लेकर आज तक** सर्विस स्ट्रीम के साथ अनुबंध था, जिससे साक्ष्य जुटाने में हमें मदद मिले।

आपकी जानकारी इस बात को सुनिश्चित करने में उपयोगी साबित होगी कि दूसरे दूरसंचार तकनीशियनों को वे फायदे मिल सकें जो उनका अधिकार है, और आपका सहयोग प्रशंशनीय है।

हमें फ़ोन के जरिए 1800 316 471 पर कॉल करके संपर्क करें या isgmclassaction@shine.com.au पर ईमेल के जरिए संपर्क करें।

आपकी कानूनी टीम



जैन सैडलर
सामूहिक कार्रवाई प्रमुख



विकी ऐंटजॉलेटस
प्रेक्टिस लीडर



हेडी बॉस्टानी
सीनियर एसोसिएट्स

हमसे संपर्क करें

ईमेल: isgmclassaction@shine.com.au

फ़ोन: 1800 316 471

डाक पता

शाइन लॉयर्स
पीओ बॉक्स 12011
जॉर्ज स्ट्रीट QLD 4003